

प्रेस नोट दिनांक-26.06.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में गैंगेस्टर, टॉप-10, इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा 13 वर्षों से मफरूर, 25000/- रुपये का इनामी अभियुक्त छोटकू निषाद पुत्र स्व0 तेजवा विसासी मुगरिहा पुरवा अमेढी थाना कमासिन जनपद बांदा को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 26.06.2021 की रात्रि में लगभग 02.15 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि 13 वर्षों के फरार इनामिया अपराधी शिवा फर्नीचर के पास वाली गली से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है, इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम पता पूछा गया तो उनसे अपना नाम छोटकू निषाद पुत्र स्व0 तेजवा विसासी मुगरिहा पुरवा अमेढी थाना कमासिन जनपद बांदा जामा तलाशी से उसके पास से एक तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। यह अभियुक्त थाना मारकुण्डी के मु0अ0सं0 219/2008 धारा 147/148/149/302/201 भदावि0, मु0अ0सं0 220/2008 धारा 395/397/342/412 भदावि0 व 12/14 डीएए एक्ट, मु0अ0सं0 224/2008 धारा 147/148/149/307 भदावि0 व 12/14 डीएए एक्ट में पिछले 13 वर्षों से मफरूर चल रहा था। इस अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर नवम्बर 2008 में मारकुण्डी से ददरी होते हुये कर्वी जाने वाले मार्ग पर राजबहादुर उर्फ राजा पुत्र रामकिशन निवासी बाबा तालाब मजरा बिलहरी थाना बहिलपुरवा की हत्या की थी तथा दिनांक 8/9.11.2008 को अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम गोपीपुर में 18-20 घरों में डकैती की घटना को अंजान दिया था तथा दिनांक 26.11.2008 को पुलिस के साथ हुयी मुढभेड़ में शामिल था जिसमें इसका एक साथी गिरफ्तार हुआ था तथा ग्राम गोपीपुर में की गयी डकैती का माल बरामद हुआ था।

उक्त अभियुक्त 2009 से इनामी अपराधी था

अवैध तमंचा कारतूस के बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 233/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त छोटकू निषाद का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 219/2008 धारा 147/148/149/302/201 भदावि0
2. मु0अ0सं0 220/2008 धारा 395/397/342/412 भदावि0 व 12/14 डीएए एक्ट
3. मु0अ0सं0 224/2008 धारा 147/148/149/307 भदावि0 व 12/14 डीएए एक्ट
4. मु0अ0सं0 233/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर
2. तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा
3. आरक्षी विपिन प्रताप सिंह
4. आरक्षी पियूष शरन श्रीवास्तव

(2). आज दिनांक 26.06.2021 को “मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस” के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में नशे से बचने व नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद के समस्त थाना/चौकियों एवं पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं कर्मचारियों को शपथ दिलायी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बलदेव सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त गोरेलाल रैदास पुत्र गिरधारी निवासी हरिजनपुर चुरेह केसरवा थाना मानिकपुर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री बलदेव सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी दीपचन्द्र

(4). यूपी 112 जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट पीआरवी 4420 थाना रैपुरा अंतर्गत दिनांक 25/06/2021 को समय 10:23 बजे इवेंट संख्या 4393 द्वारा घटनास्थल रैपुरा बंधा मोड़ थाना रैपुरा से कॉलर घनश्याम (मोबाइल नंबर 8887855147)

घटना का प्रकार घनश्याम जी ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है 2 लोग घायल है टक्कर मार कर भाग गई है। इस सूचना पर पीआरवी कर्मी अपने पॉइंट में थी तभी जानकारी हुई कि बांधी मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया है पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल इवेंट बनवाया गया और पीआरवी कर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे तो जानकारी हुई कि दो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर आपस में टकरा गई है जिसमें 02 व्यक्ति घायल हो गये है। दोनों घायलो को एम्बुलेंस की मदद से chc अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया गया और घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर थाना पुलिस आ गई है घटनास्थल थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - c घनश्याम कुशवाहा

मोबाइल नंबर - 8887855147

पायलट - hg रामराज

मोबाइल – 638869368

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 26.06.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम कलचिही व जमिरा कालोनी में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मे भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा विसण्डा तिराहा व बस स्टैण्ड का भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा ग्राम किथारा में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा बाजार बस स्टैण्ड मऊ में, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा कस्बा मे भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम भरतकूप द्वारा ग्राम भगवतपुर में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा धुस मैदान पुरानी कोतवाली व रामलीला मैदान में, एंटी रोमियो टीम रैपुरा द्वारा ग्राम कोबरा में, महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।

(6). दिनांक-26.06.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में डकैत गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु 06 टीमों ने जंगलों में कॉम्बिंग की। थाना रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक रैपुरा व उनकी टीम द्वारा गौरिहा व बिलहा के जंगलो में, श्री श्रवण सिंह प्रभारी स्वाट टीम द्वारा थाना रैपुरा अंतर्गत चुरेह केसरुआ के जंगलों में, श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में थाना पुलिस टीम एवं पीएसी बल द्वारा ददरी माफी व माढों बन्धा के जंगलों में तथा श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस टीम के साथ खदरा के जंगलों में, श्री संदीप कुमार पटेल चौकी प्रभारी सरैया द्वारा चौकी टीम के साथ रेउहाई के जंगलों में, श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी द्वारा पीएसी टीम के साथ अमरावती के जंगलो में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी ।